



ऑस्ट्रेलिया में आगमन

ऑस्ट्रेलिया के हवाईअड्डों में ग्रीन (हरे) और रेड (लाल) ज़ोन बनाए गए हैं, ताकि संगरोध-मुक्त उड़ानों (ग्रीन ज़ोन) से आने वाले यात्रियों को ऐसे यात्रियों से अलग करना सुनिश्चित किया जा सके. जिन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य संगरोध (रेड ज़ोन) में प्रवेश करना आवश्यक है।

यदि आप 72 घंटे या इससे कम समय के लिए ऑस्ट्रेलिया से पारगमन कर रहे/रही हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से स्वतः अपवाद प्राप्त है (और आपको अपवाद के लिए निवेदन नहीं करना पड़ेगा)।

आप जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करते/करती हैं, आपको उसकी संगरोध आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक होगा।

ध्यान दें: ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने वाले यात्रियों को अपने आरंभिक प्रवेश के 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाली रेड ज़ोन उड़ान पर आगे का टिकट प्राप्त करने में सक्षम होना **अनिवार्य** है। यदि कोई उपयुक्त कनेक्टिंग रेड ज़ोन उड़ान उपलब्ध नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर **पारगमन करना** संभव नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन के लिए वीज़ा आवश्यकताएँ

ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने के लिए आपके पास एक वैध वीज़ा होना चाहिए या आपको [वीज़ारहित पारगमन \(टीडब्ल्यूओवी\) \[Transit Without a Visa \(TWOV\)\]](#) के लिए पात्र किसी देश से होना चाहिए।

यदि आपके पास एक वैध वीज़ा नहीं है या आप टीडब्ल्यूओवी (TWOV) के लिए पात्र नहीं हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए वीज़ा का आवेदन करना होगा।

अधिकतम 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने के लिए [पारगमन वीज़ा \(उपवर्ग 771\) \[Transit visa \(subclass 771\)\]](#) का आवेदन करें।

मैं एक न्यूज़ीलैंड नागरिक हूँ और मैं अधिकतम 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन कर रहा/रही हूँ

न्यूज़ीलैंड के जो नागरिक [विशेष श्रेणी वीज़ा \(उपवर्ग 444\) \[Special Category visa \(Subclass 444\)\]](#) के लिए पात्र होते हैं, उन्हें अधिकतम 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने के लिए किसी दूसरे वीज़ा का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

विशेष श्रेणी (Special Category) वीज़ा पर पारगमन करने के लिए आपके पास 72 घंटों के अंदर पारगमन करने का प्रमाण होना चाहिए (जैसे यात्रा का कार्यक्रम या उड़ान टिकट) और इसे उस नगर में हवाईअड्डे पर प्रस्तुत करें जहाँ आपने ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया है।

ध्यान दें: ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने वाले यात्रियों के लिए अपने आरंभिक प्रवेश के 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाली रेड ज़ोन उड़ान (ऐसी उड़ान, जिसके आगमन पर अनिवार्य संगरोध की आवश्यकता होती है) पर आगे का टिकट प्राप्त करने में सक्षम होना **अनिवार्य** है। यदि कोई उपयुक्त कनेक्टिंग रेड ज़ोन उड़ान उपलब्ध नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करना संभव **नहीं होगा**। और अधिक जानकारी [न्यूज़ीलैंड के सुरक्षित यात्रा क्षेत्र](#) वेबपेज पर पाई जा सकती है।

पारगमन संगरोध व्यवस्थाएँ

आप जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करते/करती हैं, आपको उसकी [संगरोध आवश्यकताओं](#) का पालन करना आवश्यक होगा। अपनी आगे की उड़ान की प्रतीक्षा करते समय आपको होटल में निवास करने की आवश्यकता हो सकती है और आपसे अपने निवास का भुगतान स्वयं करने के लिए कहा जा सकता है। संगरोध आवश्यकताओं के बारे में जानकारी के लिए संबंधित [राज्य या राज्य-क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें](#)।

72 घंटों से अधिक अवधि के लिए वीज़ा और यात्रा अपवाद की आवश्यकताएँ

यदि अपनी कनेक्टिंग उड़ान की प्रतीक्षा करने में आप ऑस्ट्रेलिया में 72 घंटे से अधिक समय बिताने का उद्देश्य रखते/रखती हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करते हुए नहीं माना जाएगा और इसके लिए आपके पास:

- सही वीज़ा होने की आवश्यकता होगी। यह वेबपेज देखें: [अपने वीज़ा विकल्पों की खोज करें](#)।
- ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से अपवाद के लिए निवेदन करें। यह वेबपेज देखें: [यात्रा प्रतिबंध और अपवाद](#)।